

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 नवंबर 2022

प्रश्न -1

भारतीय नौसेना के साथ-साथ किस देश की नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 'टाइगर ट्रायम्फ 2022' अभ्यास का आयोजन किया है?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) इंडोनेशिया
- C) जापान
- D) संयुक्त राज्य अमेरिका

सही उत्तर: D

भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तीन दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास 'टाइगर ट्रायम्फ 2022' का आयोजन किया।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा हवाई अड्डा लाइसेंस मिला है?

- A) गोवा
- B) महाराष्ट्र
- C) ओडिशा
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: A

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने गोवा के मोपा हवाई अड्डे को हवाई अड्डे का लाइसेंस दे दिया है ताकि वह उड़ान संचालन शुरू कर सके।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 नवंबर 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया था?

- A) गुजरात
- B) हरियाणा
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: B

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, 126 किलोमीटर रेल लाइन का शुभारंभ किया, जो पलवल को सोनीपत से मानेसर और खरखोदा से जोड़ती है।

प्रश्न -4

_____ हवाई अड्डे को दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया।

- A) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- B) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- C) नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- D) चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

सही उत्तर: A

राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनकर उभरा है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 नवंबर 2022

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेस्ला के CEO एलोन मस्क द्वारा अधिग्रहित किया गया था?

- A) फेसबुक
- B) इंस्टाग्राम
- C) स्नैपचैट
- D) ट्विटर

सही उत्तर: D

टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अधिग्रहण कर लिया है, जिसे वह 44 अरब डॉलर में खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं।

प्रश्न -6

_____ विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश होगा।

- A) फिजी
- B) किरिबाती
- C) न्यूजीलैंड
- D) मार्शल द्वीप समूह

सही उत्तर: A

12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला फिजी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। फिजी अगले वर्ष 15-17 फरवरी, 2023 तक सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 नवंबर 2022

प्रश्न -7

किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना "समृद्धि" शुरू की है?

- A) दिल्ली
- B) गुजरात
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) तेलंगाना

सही उत्तर: A

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना "समृद्धि 2022-23" शुरू की है।

प्रश्न -8

खाद्य पदार्थों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस व्यंजन को 'मोस्ट पॉपुलर GI' पुरस्कार मिला है?

- A) बीकानेरी भुजिया
- B) हैदराबादी हलीम
- C) रसगुल्ला
- D) रतलामी सेव

सही उत्तर: B

रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव सहित अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़ते हुए तेलंगाना के हैदराबादी हलीम ने 'मोस्ट पॉपुलर GI' का पुरस्कार जीता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 नवंबर 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला वन रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक डायट्रिच माटेशिट्ज का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) मैकलारेन
- B) रेड बुल रेसिंग
- C) रेनॉल्ट F1 टीम
- D) विलियम्स रेसिंग

सही उत्तर: B

एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेड बुल के सह-संस्थापक और रेड बुल फॉर्मूला वन रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक डायट्रिच माटेशिट्ज का हाल ही में निधन हो गया है।

प्रश्न -10

_____ को नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।

- A) दिनेश कार्तिक
- B) एम.एस. धोनी
- C) वीरेंद्र सहवाग
- D) युवराज सिंह

सही उत्तर: D

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को हाल ही में नेत्रहीनों के लिए तीसरे टी20 विश्व क्रिकेट कप के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।